



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1933 (श०)
(सं० पटना 150) पटना, मंगलवार, 26 अप्रैल 2011

कला संस्कृति एवं युवा विभाग
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना
23 फरवरी 2011

सं० 3 पुरा०/प्र-1-04/07-42—राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या 630, दिनांक 16 अक्टूबर 1993 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचित संख्या 281 पुरा/वि2-1035/91, दिनांक 13 अक्टूबर 1993 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिदिष्ट टेकारी किला (नौ आना) प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष के सुरक्षित घोषित करने के अपने आशय का दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व” स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 1976 की धारा 3 (1) के आदेशानुसार उक्त प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थान पर चिपका दी गई थी।

और जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिसूचना की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न सूची में विनिदिष्ट टेकारी किला (नौ आना), जिला गया के प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कमलेश्वर गिरी,
निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।

सुरक्षित घोषित किये जाने वाले पुरातत्व स्थल संबंधी राजस्व विवरणी

ग्राम व थाना संख्या	खाता नं०	खेसरा	रकबा	किस्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
नौ आना टिकारी-168	174	536	ए०डी०	किला दो मंजिला	खाताधारी का नाम
			1.81		रघुवंशी मणि प्रसाद
		423	0.25	सहन	नारायण सिंह
		424	1.1-1/4	मंदिर	वो राघवेन्द्र प्रसाद
		474 क	0.25-1/2	सहन	ना सिंह वो
		474 ख	0.04	ठाकुरबाड़ी	अवधेश प्रसाद ना०
		474 ग	0.1-1/2	मंदिर	सिंह वो कौशलेन्द्र
		474 घ	0.1-1/4	ठाकुरबाड़ी	प्र०ना०सिंह वो
	242	474 ड	0.02	खंडहर	अवधेश प्रसाद ना० सिंह पिता-हरिप्रसाद ना० सिंह
					शत्रोहन शरण सिंह पिता-शिवशरण सिंह, साकिन सिन्दुआरी, थाना-कोच (गया)
		527	0.60	सहन	
		525क	0.1-1/2	सहन	
		525 ख	0.3/4	गेट	
		52	1.48	पिंड किला	शत्रोहन शरण सिंह पिता-शिवशरण सिंह, साकिन सिन्दुआरी, थाना-कोच (गया)
		53	0.10-1/2	खण्ड	
		54	0.36-1/4	परती	
		62	1.41	परती	
		617	0.22-1/4	खंडहर	
	106	615	0.79-1/4	परती	नागेश्वर प्रसाद उर्फ नागो प्रसाद , पिता-ब्रह्मदेव सहाय, वो केदार सिंह, वो० बालकेश्वर सिंह, वो० राम प्रवेश सिंह, पिता-जय नंदन सिंह

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर गिरी,

निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 150-571+50-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>